



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2062]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 2, 2019/आषाढ 11, 1941

No. 2062]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 2, 2019/ASHADHA 11, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 2019

का.आ. 2281(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप धारा के तहत दिनांक 17.05.2019 को पीडी-12001/31/2019-कोफेपोसा के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री मुहम्मद फासिल वेलमवेलिल अबूबकर सुपुत्र श्री मुहम्मद, निवासी वेलमवेलिल भवन, रायोनपुरम, पो.ऑ., दक्षिण, वालोम, इर्नाकुलम दक्षिण, वालोम, जुमा मस्जिद, इर्नाकुलम केरल-683543 को हिरासत में लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, साने गुरुजी मार्ग, आर्थुर रोड, चिंचपोकली 1, कस्तूरबा अस्पताल के सामने, मुंबई में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, माल की तस्करी में सहायता करने, तस्करी का माल लाने-ले जाने तथा निषिद्ध माल का धंधा करने से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का तामील न किया जा सके।

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह महानिदेशक पुलिस, केरल सरकार तिरुवनंतपुरम या पुलिस आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई के सामने उपस्थित हो।

[सं. पीडी-12001/31/2019 –कोफेपोसा]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)
(COFEPOSA WING)

ORDER

New Delhi, the 28th June, 2019

S.O. 2281(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12001/31/2019-COFEPOSA dated 17.5.2019 under the said sub-section directing that Shri Muhammed Fasil Vellmveelil Aboobacker, S/o Shri Muhammed, R/o Vellamvelil House, Rayonpuram P.O. South, Vallom Ernakulam South, Vallom Juma Masjid, Ernakulam, Kerala- 683543 be detained and kept in Central Jail, Sane Guruji Marg, Arthur Road, Chinchpokli, 1, Opposite Kasturba Hospital, Mumbai with a view to preventing him from smuggling of goods, abetting the smuggling of goods and engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the Order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Government of Kerala, Thiruvananthapuram or the Commissioner of Police, Government of Maharashtra, Mumbai within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[No. PD-12001/31/2019-COFEPOSA]

RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.